

Date
16-
02-
2021

सराहनीय कार्य जनपद बिजनौर

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशन में बैंको की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टीगत चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत समस्त थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पडने वाले समस्त बैंको की सघन चैकिंग की गयी एवं बैंकों के अन्दर एवं आस-पास घूम रहे संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चैकिंग की गयी।



आज दिनांक **16.02.2021** को **डॉ0 प्रवीन रंजन सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद बिजनौर** द्वारा डायल 112 कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया, डायल 112 की गाड़ियों के रिस्पांस टाइम संबंधी/साफ-सफाई एवं अभिलेखों का रखरखाव सम्बन्धी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये।



अवगत कराना है कि दिनांक 15.02.2021 को समय करीब 23.00 बजे थाना अफजलगढ पर तैनात क0आ0 त्रिवेश वर्मा (पीएनओं-170958141) पुत्र श्री अशोक कुमार वर्मा निवासी ग्राम बडका थाना बडौत, जनपद बागपत को थाने के सामने किसी अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मार दी गयी। जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में क0आ0 त्रिवेश वर्मा उपरोक्त को सीएचसी अफजलगढ में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टर द्वारा क0आ0 त्रिवेश वर्मा उपरोक्त को मृत घोषित कर दिया गया। परिजनो को सूचित कर दिया गया है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।

थाना रेहड:- आज दिनांक 16.02.2021 को थाना रेहड पुलिस द्वारा अभियुक्त चोखे सिंह पुत्र श्री भूलन सिंह निवासी ग्राम वादीगढ थाना रेहड जनपद बिजनौर को अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी में मा0 न्यायालय श्रीमान परगना अधिकारी, धामपुर के समक्ष पेश किया गया।



थाना मण्डावली:- आज दिनांक 16.02.2021 को थाना मण्डावली पुलिस द्वारा अमन पुत्र मदन निवासी ग्राम हसनपुर को गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना बढापुर:- दिनांक 14.02.2021 को थाना बढापुर पुलिस द्वारा पर एक नफर अभियुक्त गुरुचरण पुत्र जाकर सिंह निवासी ग्राम मधपुरी थाना बढापुर को एक मोटरसाइकिल पर अवैध कच्ची शराब 20 लीटर के साथ गिरफ्तार किया गया इस संबंध में थाना बढापुर पर मुकदमा अपराध संख्या 17/21 धारा 60(1)/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत पंजीकृत किया गया।



थाना स्योहारा:- आज दिनांक 16.02.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 1.राहुल पुत्र राजाराम सिंह निवासी ग्राम राणा नगला थाना स्योहारा 2.अब्दुल फारुख पुत्र श्री अब्दुल निवासी सहसपुर को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय एसडीएम कोर्ट धामपुर के समक्ष पेश किया गया।



थाना नहतौर:- दिनांक 15.02.2021 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा अभियुक्त रिजवान पुत्र नूर अली निवासी ग्राम इब्राहिमपुर शादो उर्फ अलीनगर थाना नहतौर जनपद बिजनौर को मय पर्चा सट्टा गत्ता पैन् व 1050 रुपये नगद के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध मे थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 37/21 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया।



जनपद बिजनौर दिनांक 16-02-2021



आज दिनांक **16.02.2021** को थाना कोतवाली शहर की एंटी रोमियो टीम द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये “मिशन शक्ति” के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में महिलाओं/छात्राओ को जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया तथा भीडभाड वाले स्थानो बाजारो में मंचलो पर शिकंजा कसा ।





आज दिनांक **16.02.2021** को थाना धामपुर की एंटी रोमियो टीम द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये “मिशन शक्ति” के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में कन्या इण्टर कॉलेज की छात्राओं के साथ रैली निकालकर मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गयी महिलाओं/छात्राओ को जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया तथा भीडभाड वाले स्थानो बाजारो में मंचलो पर शिकंजा कसा ।

